



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 1982/वी० 28, 1903  
No. 15] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 1982/PAUSA 28, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

सं० प्रतिप्रदायगी/सा० सू० 2/82

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1982

फा०सं० 600/3810/80-प्रति प्रदायगी.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी, नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सा०सू० 20/81 दिनांक 1 जून, 1980 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

I. उपक्रमांक 3827 के सामने, कोलम “माल का विवरण” में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

3827 इलेक्ट्रॉनिक टिनप्लेट (एम०आर० नवालिटी डी 100/50) से निर्मित ओपन टॉप सेनिटरी (ओ०टी०एस०)/डिग्ले कैन्स, जब उनका उसी रूप में, या चपटे रूप में अथवा असंयोजित रूप में निर्यात किया गया हो।

II. उपक्रमांक 3827 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

3828	एम०आर० नवालिटी के इलेक्ट्रो-लिटिक टिन प्लेट से निर्मित अन्यथा अविनिश्चित ओपन टॉप सेनिटरी (ओ टी एस)/डिग्ले कैन्स, जब उनका उसी रूप में अथवा असंयोजित रूप में निर्यात किया गया हो अथवा जब उनका हस्तमाल निर्यात के अग्र्य माल को पैक करने के लिए किया गया हो।	3.50 रु० (केवल तीन रुपये पचास पैसे) प्रति किलोग्राम	सम्पूर्ण सीमा-शुल्क
------	---	---	---------------------

टिप्पणी :— जहाँ ओ०टी०एस०/डिग्ले कैन्स का हस्तमाल निर्यात के अग्र्य माल को पैक करने के लिए किया गया हो, तो उस स्थिति में ऐसे आधानों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मब 46 के अधीन उद्ग्रहणीय वास्तविक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को यदि कोई प्रदायगी की गई हो तो उसके बराबर प्रतिप्रदायगी का भुगतान भी किया जाएगा।

यह सार्वजनिक सूचना जून, 1981 के प्रथम दिन को लागू हुई समझी जाएगी।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## PUBLIC NOTICES

No. DRAWBACK/PN-2/82

New Delhi, the 18th January, 1982

F. No. 600/3810/81-DBK.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Export Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary—dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-20/81 dated the 1st June, 1981:—

I. In the Column "Description of goods" against S. S. 3827, the following shall be substituted, namely:—

3827 Open top sanitary (OTS)/Dingley Cans made of electrolytic tin plate (MR quality D 100/50), when exported as such, or in flattened form or in knocked down condition.

II. After sub-serial No. 3827 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely:—

3828 Open top sanitary (OTS)/  
dingley cans made of MR  
quality electrolytic tin  
plate, not otherwise speci-  
fied, when exported as such  
or in flattened form or in  
knocked down condition or  
when used in packing other  
export goods.

Rs. 3.50 All  
(Rupees Cus.  
three and  
paise fifty  
only) per  
kg.

Note:—Where the OTS/dingley cans are used for packing other export goods, a drawback equivalent to the actual central excise duty paid, if any, on such containers under item 46 of Central Excise Tariff shall also be paid.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1981.

## सं. प्रतिप्रदायनी/सा.सू. 3/82

का.सं. 600/5504/80-प्रतिप्रदायनी.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायनी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 52/का.सं. 602/2/70-प्र.प्र.) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिप्रदायनी/सा.सू. 20/81 दिनांक 1 जून, 1981 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपक्रमांक 5504 के नीचे दी गई मीजूदा टिप्पणी को "टिप्पणी (i)" संख्या दी जायेगी तथा टिप्पणी (i) के पश्चात निम्नलिखित अनिश्चित टिप्पणी जोड़ी जाएगी:—

"टिप्पण (2)—प्रति 100 (केवल एक सौ) एल.पी. रिकाडों पर 20.00 रु० (केवल बीस रुपये) की दर से, प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर यदि कोई हो, प्रतिप्रदायनी के रूप में अनिश्चित प्रतिप्रदायनी देय होगी। एल.पी. रिकाडों के मामले में पैकिंग सामग्री के संबंध में प्रतिप्रदायनी के किसी पृथक दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

सार्वजनिक सूचना 1 जून, 1981 को लागू की समझी जाएगी

## No. DRAWBACK/PN-3/82

F. No. 600/5504/81-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-20/81 dated the 1st June, 1981:—

The existing note under S.S. 5504 shall be re-numbered as "note (1)" and after note (1), the following further note shall be added:—

"Note (2)—An additional drawback at the rate of All Rs. 20.00 (Rupees twenty only) per 100 C.Ex. (one hundred only) LP records shall be payable as drawback on packing materials used, if any. No separate claim for drawback on packing material shall be entertained for such LP Records."

The public notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1981.

## सं. प्रतिप्रदायनी/सा.सू. 4/82

का.सं. 600/4604/81-प्र.प्र.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रतिप्रदायनी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 52/का.सं. 602/2/70-प्र.प्र.) के नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिप्रदायनी/सा.सू. 20/81 दिनांक 1 जून, 1981 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

उप क्रमांक 4611 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित उप क्रमांक और प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:—

उप क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिप्रदायनी की दर	विनिधान सी.सू. के.उ.सू.
1	2	3	4
4612	मशी एल्युमीनियम कंडक्टर (ए.ए.सी.)	4.05 रु० (केवल चार रुपये पांच पैसे) प्रति किलो-ग्राम	सम्पूर्ण सीमा शुल्क
4613	एल्युमीनियम कंडक्टर, इस्पात-प्रबलित (ए.सी.एस.आर.)	(क) एल्युमीनियम अंतर्वस्तु 4.05 रु० (केवल चार रुपये पांच पैसे) प्रति किलोग्राम	सम्पूर्ण के.उ.सू.
	(ख) इस्पात अंतर्वस्तु गालविनिकृत से भिन्न	380.00 रु० (केवल तीन सौ अस्सी रुपये) प्रति मी० टन	सम्पूर्ण के.उ.सू.
	(ग) इस्पात अंतर्वस्तु, यदि गालविनिकृत हो।	595.00 रुपये (केवल पांच सौ पचास रुपये) प्रति मी० टन	230 365

ऊपर उल्लिखित माल के बारे में अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के लिए नियत सभी प्रांश दरें, इस सार्वजनिक सूचना के लागू होने के साथ ही वापस ले ली गई समझी जायेंगी।

यह सार्वजनिक सूचना 1 जनवरी 1982 को लागू समझी जायेगी।

#### No. DRAWBACK/PN-4/82

F.No. 609/4604/81-DBK.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Export Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary—dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-20/81, dated the 1st June, 1981:—

After sub-serial No. 4611 and the entries relating thereto, the following sub-serial Nos. and the entries shall be inserted, namely:—

Sub-serial No.	Description of goods	Rate of drawback	Allocation	
			Cus.	C.Ex.
1	2	3	4	5
4612	All Aluminium conductors (AAC)	Rs. 4.05 (Rupees four and paise five only) per kg.	All	C. Ex.
4613	Aluminium conductors, steel re-inforced (ACSR)—			
(a)	Aluminium content	Rs. 4.05 (Rupees four and paise five only) per kg.	All	C. Ex.
(b)	Steel content other than galvanised	Rs. 380.00 (Rupees three hundred eighty only) per tonne	All	C. Ex.
(c)	Steel content, if galvanised	Rs. 595.00 (Rupees five hundred ninety five only) per tonne	230.00	365.00

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1982.

#### सं० प्रतिप्रदायगी/सां० सू०-5/82

का०सं० 600/2009/9/81-प्र०अ०/का०सं० 600/2801-2807/81-प्र०अ०.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, अध्याधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का०सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सां० सू० 20/81, दिनांक 1 जून, 1981 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

I. उप-क्रमांक 2009 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित उप-क्रमांक और प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:—

उप-क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिप्रदायगी की दर	विनिधान
1	2	3	4
2009	रिक्लेम्ड रबर	56.00 रु० (केवल छप्पन रुपये) प्रति मी० टन	36.00 20.00

टिप्पणी. ऊपर स्तम्भ "प्रतिप्रदायगी की दर" के तहत उल्लिखित दरों के अभाव में निम्नोक्त पैकिंग सामग्री पर प्रतिप्रदायगी अनुमत्य है:—

- (क) जहाँ पर माल की पैकिंग लकड़ी के केटों/पेटियों में की गई हो। 3.85 रुपये सम्पूर्ण (केवल तीन रुपये पचासी पैसे) रिक्लेम्ड रबर के प्रति मी० टन।
- (ख) जहाँ पर माल की पैकिंग बोरी/हेसियन/पटसन और पोलिथिलीन में की गई हो। 20.80 रु० सम्पूर्ण (केवल बीस रुपये अस्सी पैसे) रिक्लेम्ड रबर के प्रति मी० टन।

II. उप-क्रमांक 2807 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:—

2808	हथकरवा सूती दरिया/मोटे ऊनी बस्त्र, जब धागे रंजित हों/अथवा टुकड़े रंजित हों और/अथवा मुख्यतया रंजित हों।	0.80 रु० (केवल अस्सी पैसे) प्रति किग्रा	सम्पूर्ण के०उ०शु०
------	--	---	-------------------

ऊपर उल्लिखित माल के बारे में अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के लिए नियत की गई सभी प्रांश दरें, इस सार्वजनिक सूचना के लागू होने के साथ ही वापस ले ली गई समझी जायेंगी।

यह सार्वजनिक सूचना 1 जनवरी, 1982 से लागू समझी जायेगी।

#### NO. DRAWBACK/PN-5/82

F.No. 600/2009/9/81—DBK/F.No. 600/2801-2807/81-DBK.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Export Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary—dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN 20/81, dated the 1st June, 1981:—

I. After sub-serial No. 2008 and the entries relating thereto, the following sub-serial No. and the entries shall be inserted, namely:—

Sub-serial No.	Description of goods	Rate of drawback	Allocation	
			Cus.	C.Ex.
1	2	3	4	5
2009	Reclaimed Rubber	Rs. 56.00 (Rupees fifty-six only) per tonne	36.00	20.00

Note:—In addition to rates indicated under Col. "Rate of drawback" above, drawback on packing material as indicated below is admissible:—

1	2	3	4
(a) Where goods are packed in wooden crates/cases	Rs. 3.85 (Rupees three & paise eighty five only) per tonne of reclaimed rubber	All	C. Ex.
(b) Where goods are packed in Gunny/Hessian/Jute and Polyethylene	Rs. 20.80 (Rupees twenty and paise eighty only) per tonne of reclaimed rubber	All	C. Ex.

II. After Sub-serial No. 2807 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely:—

2808 Handloom cotton Durries/Druggets, when yarn dyed and/or piece dyed and/or mainly coloured	Rs. 0.80 (Paise eighty only) per kg.	All	C.Ex.
--	--------------------------------------	-----	-------

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1982.

सं० प्रतिप्रदायगी/गा०सू० 6/82

का०सं० 600/2716/81-प्र०प्र०/का०सं०/600/2801—2807/81—प्र०प्र०—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, प्रसाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का०सं० 602/2/70-प्र०प्र०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रति-प्रदायगी/गा०सू० 20/81, दिनांक 1 जून, 1981 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—

I. उपक्रमांक 2716 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

उपक्रमांक	बाल का विवरण	प्रति प्रदायगी की दर	विनिर्धान
1	2	3	4
2716 (क) नारियल की जटा के पटसन युक्त उत्पाद	जूट अन्तर्वस्तु के प्रति मी० टन पर 660 रुपये (केवल छः सौ साठ रुपये)	मम्पूर्ण के०उ०शु०	
	जमा		
	सीसल तंतु अन्तर्वस्तु के संबंध में 2500.00 रु० (केवल दो हजार पांच सौ रुपये) प्रति मी० टन	मम्पूर्ण सीमाशुल्क	
(ख) नारियल की जटा के पटसन युक्त रजित/प्रकित उत्पाद	जूट और सीसल तंतु अन्तर्वस्तु पर प्रतिप्रदायगी उपक्रमांक 2716 (क) पर लागू दर पर		

1	2	3	4
---	---	---	---

जमा

रंजक अन्तर्वस्तु के संबंध में सम्पूर्ण के०उ०शु० निर्यात उत्पाद के प्रति मी० टन पर 100 रु० (केवल सौ रुपये)

टिप्पणी: रंजक अन्तर्वस्तु के संबंध में प्रतिप्रदायगी की दर इस शर्त पर मिलती है कि निर्यात उत्पाद का अधिकांश हिस्सा रजित/प्रकित है।

II. उपक्रमांक 2807 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

2807 (क) नारियल की जटा की पटसन युक्त चटाइयाँ	पटसन अन्तर्वस्तु के प्रति मी० टन पर 660 रुपये (केवल छः सौ साठ रुपये)	मम्पूर्ण के०उ०शु०
--	--	-------------------

जमा

सीसल तंतु अन्तर्वस्तु के संबंध में सम्पूर्ण के०उ०शु० में 2500.00 रु० (केवल सीमाशुल्क दो हजार पांच सौ रुपये)

(ख) नारियल की जटा की पटसन युक्त रजित/प्रकित चटाइयाँ

जूट और सीसल तंतु पर प्रति प्रदायगी की दर/उपक्रमांक 2807 (क) के अनुसार

जमा

रंजक अन्तर्वस्तु के संबंध में सम्पूर्ण निर्यात उत्पाद के प्रति टन पर 100.00 रु० (केवल सौ रुपये)

टिप्पणी: रंजक अन्तर्वस्तु के संबंध में प्रतिप्रदायगी की दर इस शर्त पर मिलती है कि निर्यात उत्पाद का अधिकांश रजित/प्रकित है।

यह सार्वजनिक सूचना 1 जनवरी, 1982 को लागू हुई मानी जाएगी।

जी० आर० शर्मा, उप सचिव

No.DRAWBACK/PN-6/82.

F. No. 600/2716/81-DBK/F. No. 600/2801—2807/81—DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No.52/F.No.602/2/70—DBK published in the Gazette of India—Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-20/81 dated the 1st June, 1981:—

I. For sub-serial No. 2716 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

S. No.	Description of goods	Rate of drawback	Allocation
			Cus. C. Ex.
1	2	3	4
2716 (a)	Coir products containing Jute	Rs. 660.00 (Rupees six hundred and sixty only) per tonne in respect of jute content	All C. Ex.

1	2	3	4	सं. प्रतिप्रदायगी/सां.सू. 7/82
		Plus		कां.सं. 600/3810/81-प्रतिप्रदायगी:—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, प्रसाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अश्विसूचना सं. 52/कां.सं. 602/2/70 प्र.अं.) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिप्रदायगी/सां.सू. 20/81-दिनांक 1 जून, 1981 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—
		Rs. 2500.00 (Rupees two thousand and five hundred only) per tonne in respect of sisal fibre content.	All Cus.	उपक्रमांक 3825, 3826 और 3827 के सामने कालम "प्रतिप्रदायगी की दर" और "विनिर्घात" में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
(b) Dyed/stencilled coir products containing jute.	Drawback for jute and sisal fibre content at the rate against SS. 2716(a).			3825 7.50 रु० (केवल सात रुपये पचास पैसे) प्रति किलोग्राम
	Plus			उपक्रमांक 3825 के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—
	Rs. 100 (Rupees one hundred only) per tonne of export product in respect of dye content.	All C.Ex.		टिप्पणी: प्रतिप्रदायगी की उपर्युक्त दर में केन्द्रीय उत्पादन टैरिफ की मद 46 के अन्तर्गत आधानों पर उद्ग्रहणीय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क शामिल है।
Note:—The rate in respect of dye content is available subject to the condition that the major area of the export product is dyed/stencilled.				
II. For sub-serial No. 2807 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—				
2807 (a) Coir mats or mattings containing jute.	Rs. 660.00 (Rupees six hundred and sixty only) per tonne of jute content.	All C.Ex.		3826 7.50 रु० (केवल सात रुपये पचास पैसे) प्रति किलोग्राम
	Plus			उपक्रमांक 3826 के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—
	Rs. 2500.00 (Rupees two thousand and five hundred only) per tonne in respect of sisal fibre content.	All Cus.		टिप्पणी: प्रतिप्रदायगी की उपर्युक्त दर में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 46 के अधीन आधानों पर उद्ग्रहणीय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क शामिल है।
(b) Dyed/Stencilled Coir mats or mattings containing jute.	Drawback for jute and sisal fibre content at the rate against SS. 2807 (a).			3827 4.50 रु० (केवल चार रुपये पचास पैसे) सम्पूर्ण प्रति किलोग्राम सीमाशुल्क
	Plus			यह सार्वजनिक सूचना एक जनवरी, 1982 के प्रथम दिन को लागू हुई समझी जाएगी।
	Rs. 100.00 (Rupees one hundred only) per tonne of export product in respect of dye content.	All C.Ex.		
Note:—Rate in respect of dye content is available subject to the condition that major area of the export product is dyed/stencilled.				
This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1982.				

## NO. DRAWBACK/PN-7/82

F. No. 600/3810/81-DBK:—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No.602/2/70-DBK published in the Gazette of India Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-20/81 dated the 1st June, 1981:—

In the column 'Rate of Drawback' and 'Allocation' against SS. 3825, 3826 and 3827, the following shall be substituted, namely:—

3825 Rs. 7.50 (Rupees seven and Rs. 4.50 Rs. 3.00 paise fifty only) per kg.

Under SS. 3825 the following note shall be added, namely:—

Note:—The above rate of drawback is inclusive of the Central Excise duty on containers under Item 46 of the Central Excise Tariff.

3826 Rs. 7.50 (Rupees seven and Rs. 4.50 Rs. 3.00 paise fifty only) per kg.

Under SS. 3826, the following note shall be added, namely:—

Note:—The above rate of drawback is inclusive of Central Excise duty on containers under Item 46 of the Central Excise Tariff.

3827 Rs. 4.50 (Rupees four and Rs. 3.00 Rs. 3.00 paise fifty only) per Kg.

This public notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1982.

सं. प्रतिप्रदायगी/सां.सू. 8/82

फां.सं. 600/3704/81-प्र.अं./फां.सं. 660/4604/81/प्र.अं.]—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, अध्याध्याय, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 52/फां.सं. 602/2/70-प्र.अं. के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार यथासंशोधित मासिक सूचना सं. प्रतिप्रदायगी/सां.सू. 20/81 दिनांक 1 जून, 1981 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:

उपक्रमांक 3704, (क) और (ख) 3705, 3706, 3808, 3809 4610, 4611 (ग), 4612 और 4613 (क) के मामले "प्रतिप्रदायगी की दर" और "विनिर्माण" स्तंभ में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात्:—

3704 (क) और (ख)	680 रु० (केवल छः सौ अस्सी रुपये) प्रति मी० टन	सम्पूर्ण के०उ०शु०
3705	4.00 रुपये (केवल चार रु०) प्रति किलोग्राम	सम्पूर्ण के०उ०शु०
3706	5.75 रु० (केवल पांच रु० पचाहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम	सम्पूर्ण के०उ०शु०

टिप्पणी.—उपक्रमांक 3705 और 3706 के मामले निर्दिष्ट प्रतिप्रदायगी की दर के०उ०शु० और तमक अधिनियम 1944 की प्रथम अनुसूची की मख (2) के अन्तर्गत आने वाले माल पर लागू नहीं होगी।

3808	5.75 रु० (केवल पांच रुपये पचाहत्तर पैसे) प्रति कि०ग्रा०	सम्पूर्ण के०उ०शु०
3809	3.50 रु० (केवल तीन रुपये पचास पैसे) प्रति किलोग्राम	सम्पूर्ण के०उ०शु०
4610	37250.00 रुपये (केवल सैतीस हजार सात सौ पचास रुपये) प्रति किलोग्राम	27,000.00 सीमा-शुल्क 10,750.00 के०उ०शु०
4611 (ग)	4.30 रु० (केवल चार रु० तीस पैसे) प्रति किलोग्राम	सम्पूर्ण के०उ०शु०
4612	4.35 रु० (केवल चार रु० पैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम	सम्पूर्ण के०उ०शु०
4613 (क)	4.35 (केवल चार रु० पैंतास पैसे) प्रति किलोग्राम	सम्पूर्ण के०उ०शु०

यह मासिक सूचना 1 मार्च 1982 को लागू होगी।

जी०आर० शर्मा, उप सचिव

NO. DRAWBACK/PN-8/82

F.No. 600/3704/81-DIK/F.No.600/4604/81—DBK:—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971, the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-20/81 dated the 1st June, 1981:—

In the column "Rate of Drawback" and "Allocation" as the case may be, against S. S. Nos. 3704 (a) & (b) 3705, 3706, 3808, 3809, 4610, 4611 (c), 4612 and 4613(a) the following shall be substituted, namely:—

3704 (a) & (b)	Rs. 680.00 (Rupees six hundred and eighty only) per tonne.	All Central Excise.
3705	Rs. 4.00 (Rupees four only) per Kg.	All Central Excise.
3706	Rs. 5.75 (Rupees five and paise seventy five only) per Kg.	All Central Excise.

Note:—The rates of drawback specified against sub-serial Nos. 3705 and 3706 shall not be applicable to goods falling under item 27 of the first Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944.

3808	Rs. 5.75 (Rupees five and paise seventy-five only) per Kg.	All Central Excise.
3809	Rs. 3.50 (Rupees three and paise fifty only) per kg.	All Central Excise.
4610	Rs. 37,750.00 (Rupees thirty seven thousand, seven hundred and fifty only) per kilo-meter.	Rs. 27,000.00 Cus. Rs. 10,750.00 C.Ex.
4611(c)	Rs. 4.30 (Rupees four and paise thirty only) per Kg.	All Central Excise.
4612	Rs. 4.35 (Rupees four and paise thirty five only) per Kg.	All Central Excise.
4613(a)	Rs. 4.35 (Rupees four and paise thirty five only) per Kg.	All Central Excise.

This public notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of March, 1982.

G. R. SHARMA, Dy. Secy.